



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 136) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2016

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

10 फरवरी, 2016

सं0 बी1-3-02/2016-10—31-हरलाखी बिहार विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान-सभा का उप-निर्वाचन, 2016 के अवसर पर मतदान मशीनों के प्रयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या- 576/3/ई0वी0एम0/2016/एस0डी0आर0/खण्ड-I दिनांक 02.02.2016 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 2 फरवरी, 2016

सं० 576/3/ई.वी.एम./2016/एस.डी.आर/खण्ड-I:-यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे, तथा

2. यतः आयोग ने उत्तर प्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एवं 5-देवबन्द विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग(अ.ज.जा.) 50-बीदर एवं 158-हेबल विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा के 35-नारायणखंड विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान-सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130-पालघर (अ.ज.जा.) विधान-सभा क्षेत्र, पंजाब के 24-खडूर साहिब विधान-सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान-सभा क्षेत्र और त्रिपुरा के 42-अमरपुर विधान-सभा क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि अपर्युक्त विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचन भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्य प्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उत्तरप्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एवं 5-देवबन्द विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग(अ.ज.जा.), 50-बीदर एवं 158-हेबल विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा के 35-नारायण खंड विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान-सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130-पालघर(अ.ज.जा) विधान-सभा क्षेत्र, पंजाब के 24-खाडूर साहिब विधान-सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान-सभा क्षेत्र और त्रिपुरा के 42-अमरपुर विधान-सभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 20.01.2016 (बुधवार) को उक्त राज्यों में अधिसूचित किए गए विधान-सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार

सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 2nd February, 2016.

No. 576/3/EVM/2016/SDR/Vol.I:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 14-Muzaffar Nagar, 274-Bikapur and 5-Deoband Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 56-Devadurga(ST), 50-Bidar and 158-Hebbala Assembly Constituencies in Karnataka, 35-

Narayankhed Assembly constituency in Telangana, 65-Maihar Assembly constituency in Madhya Pradesh, 130-Palghar(ST) Assembly constituency in Maharashtra, 24-Khadoor Sahib Assembly constituency in Punjab, 31-Harлакhee Assembly constituency in Bihar and 42-Amarpur Assembly constituency in Tripura and is satisfied that sufficient number of Election Voting Machines are available for taking the poll in the above mentioned Assembly constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines:

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 14-Muzaffar Nagar: 274-Bikapur and 5-Deoband Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 56-Devadurga(ST), 50-Bidar and 158-Hebbal Assembly constituencies in Karnataka, 35-Narayankhed Assembly Constituency in Telangana, 65-Maihar Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 130-Palghar (ST) Assembly Constituency in Maharashtra, 24-Khadoor Sahib Assembly Constituency in Punjab, 31-Harлакhee Assembly constituency in Bihar and 42-Amarpur Assembly of Constituency in Tripura as the Constituencies in which the votes at the current bye-election to the Legislative Assemblies from the said constituencies notified on 20-01-2016(Wednesday), shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Election rules, 1961, and the supplementary instruction issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 136-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>